



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
पालमपुर, हिमाचल प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-11-2021

सिरमौर(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-11-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-12-01	2021-12-02	2021-12-03	2021-12-04	2021-12-05
वर्षा (मिमी)	0.0	10.0	20.0	10.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	23.0	23.0	24.0	24.0
न्यूनतम तापमान(से.)	10.0	12.0	10.0	11.0	12.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	75	89	88	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	68	70	75	78
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
पवन दिशा (डिग्री)	22	22	25	135	248
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	8	5	4	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सिरमौर जिले में मौसम परिवर्तनशील रहेगा अगले 5 दिनों के लिए। अधिकतर स्थानों पर हल्के से मध्यम बादल (1-8 ओक्टा) रहेंगे। अगले 5 दिनों के दौरान 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सिरमौर जिले में बारिश (40 मिमी) होने की संभावना है। हवा की गति 9 किमी/घंटा रहने की संभावना है। सिरमौर जिले में वातावरण में सापेक्षिक आर्द्रता 65 से 89 % के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दीर्घकालिक पूर्वानुमान प्रणाली (ईआरएफएस) के अनुसार 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के दौरान सिरमौर क्षेत्र में बारिश का स्तर सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान सामान्य और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

जिले के सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो लोग एंड्रायड मोबाइलफोन का इस्तेमाल करते हैं, वे दामिनी और मेघदूत मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोडकरें ताकि सही समय पर मौसम की जानकारी मिल सके और अच्छी फसल हो सके। मक्के, धान और दलहन की कटाई के बाद, 12% नमी पर अनाज को स्टोर करें ताकि कीटों से बचा जा सके। पिछली फसल के सभी अनाज और अन्य भंडारण पदार्थ को हटाकर गोदामों को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। भंडारित अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए 3 पैकेट सल्फॉस प्रति टन अनाज की दर से प्रयोग करें तथा ढाँचे को अच्छी तरह से सील कर के रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

अगले 5 दिनों में कम वर्षा की संभावना के कारण किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आसमान साफ होने पर ही

बुवाई पूरी करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	जिले के सभी किसान भाइयों को क्षेत्र में गेहूँ की बुवाई की सलाह दी जाती है। समय पर बोई जाने वाली गेहूँ की किस्में जैसे कि HPW-236, HPW-349, HPW-368 and HS-562 लगाने की सलाह दी जाती है। बिजाई 20-22 सें.मी. के फासले पर 100 किग्रा./हेक्टेयर की दर से करें। बुवाई से पहले बीज को 2.5 ग्राम/किलोग्राम की दर से बाविस्टिन से उपचारित करें। एसएसपी (20 किग्रा/बीघा), एमओपी (5 किग्रा/बीघा) की पूरी मात्रा, यूरिया आधी खुराक (7 किग्रा/बीघा) के साथ गोबर की खाद के साथ बुवाई के समय डालें जबकि शेष आधी मात्रा (7 किग्रा/बीघा) मूसल जड़ें निकलने पर प्रयोग करें।
चना	किसानों को सलाह दी जाती है कि चना की बुवाई पूरी कर लें। चना के लिए अनुशंसित किस्में हिमाचल चना -1, हिमाचल चना -2, पालम चना -1 हैं। चना की बुवाई से पहले बीज को फफूंदनाशक और जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम और फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया से उपचारित करें।
बरसीम	यह समय चारे की फसलों की बुवाई का उपयुक्त समय है। बरसीम और राई घास की बुवाई इस समय पूरी कर लेनी चाहिए।
लहसुन	किसानों को सलाह दी जाती है कि सड़े हुए एफवाईएम के साथ अच्छी तरह से तैयार खेतों में लहसुन की फसल की बुवाई करें। लहसुन के लिए अनुशंसित किस्में जैसे जीएचसी- 1, सोलन चयन, एग्रीफाउंड, पार्वती आदि का प्रयोग करें, बीज दर 40-50 किलोग्राम / बीघा है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	जिन क्षेत्रों में फूलगोभी, ब्रोकली की नर्सरी 26-28 दिन पुरानी है, वहां रोपाई करनी चाहिए।
प्याज	किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी सीजन की प्याज नर्सरी 8-10 किलोग्राम/हेक्टेयर या 700-800 ग्राम/बीघा बीज दर की दर से बुवाई करें। प्याज के लिए अनुशंसित किस्में जैसे एग्री फाउंड डार्क रेड, पालम लोहित और प्याज की अन्य अनुशंसित किस्मों का उपयोग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	सभी पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि तापमान में हो रही निरंतर बदलाव को मद्देनजर रखते हुए अपने पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी करते रहें। इस समय उपलब्ध हरे चारे का इस्तेमाल साइलेज बनाने में करें इस मौसम में हरे व सूखे चारे के अलावा 50 ग्राम नमक अथवा नमक की चाट और 50 ग्राम खनिज मिश्रण भी दाना मिश्रण के साथ दें। इसके अलावा दूध की बिक्री के समय उचित दूरी बनाए रखें तथा मास्क लगाकर रखें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर उचित मास्क का उपयोग करने की भी सलाह दी जाती है। क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के कृषि/बागवानी अधिकारी, पशु चिकित्सक या कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहें।